



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, दिसम्बर 14—दिसम्बर 20, 2003, शनिवार/अग्रहायण 23—अग्रहायण 29, 1925
No. 26] NEW DELHI, DECEMBER 14—DECEMBER 20, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 23—AGRAHAYANA 29, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

आ. अ. 60.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल विधान सभा 2001 के साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	31—वानदूर	1. एम. अप्पुकुटट्टन, मोलीकल हाऊस, इलायन्ना पो., मल्लापुरम, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	36—तिरूरानगाड़ी	1. के. बालाकृष्णन्, कुटयमबट्टा हाऊस, वेनीयुर, वालाकुल्लम पो., केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	37—तानुर	1. चाथापन, मेलेपुथुपाराम्बिल हाऊस, (पो.) पुथुपाराम्बा, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
4.	39—पोन्नानी	1. ए. पी. मोहम्मद, अयीक्कपाडथ, अलानकोड (पो.) चांगारामकुलम, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
		2. के. सदानन्दन, कांजीरामुक्कु (पो.), मारानचेरी, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
5.	40—कुट्टीपुरम	1. के. पी. सैयद अली सुपुत्र बीरन हाजी, काडापाराम्बिल हाऊस, मुक्किलापीडिका, पो. पेन्कानुर, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
6.	41—मन्कदा	1. मानामकुडीयिल अलाबी, मानाम कुडीयिल, चेरुकुलाम्बा, पो. वट्टालुर, मकारापाराम्बा, मल्लापुरम, पिन-676507, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
		2. पी. एम. अली, याराक्कल हाऊस, हाजीयर पल्ली पो., मल्लापुरम, पिन-676519, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
		3. कोरीमानिल पट्टीयिल अहमद माजीद, कोरीमानिल पट्टीयिल हाऊस, पो. वेल्लीला मल्लामुरम, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
7.	42—पेरीनथालमान्ना	1. माडाथोडी अयामु हाजी, माडाथोडी हाऊस, थेलाकाड पो., केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
		2. थामारथ अशरफ अली, थामारथ हाऊस, मानाथुमानगालाम, थलमान्ना, पेरीनथालमान्ना, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
		3. काराथिल सुनील कुमार, काराथिल हाऊस, मानथुम्मा नगालाम, पेरीनथालमान्ना, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।
8.	47—मन्नारकाड	1. एम. सुकुमारन, मेलूवीटिल, अगाली पो., पालघाट, पिन-678581, केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
9.	49—पालघाट	1. एडवोकेट रेमा रघुनन्दन, "समरुथी", अक्कीकावे, कुन्नामकुलम, थ्रिस्सूर केरल।	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/केरल-वि० सं०/2001]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 8th December, 2003

O. N. 60.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Kerala Legislative Assembly 2001 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	31—Wandoor	1. M. Appukkuttan, Mozhikkal House, Elavanna P.O., Malappuram.	Accounts not lodged
2.	36—Tirurangadi	1. K. Balakrishnan, Kurumbatta House, Venniyur Valakkulam P.O.	Accounts not lodged
3.	37—Tanur	1. Chathappan, Meleputhuparambil House, (PO) Puthuparamba.	Accounts not lodged
4.	39—Ponnani	1. A. P. Mohammed, Ayikkapadath, Alankode (P.O.), Changaramkulam. 2. K. Sadanandan, Kanjiramukku (P.O.) Marancheri.	Accounts not lodged
5.	40—Kuttippuram	1. K. P. Sayyed Ali, S/o. Beeran Haji, Kadaparambil House, Mukkilapeedikka, P.O. Painkannur.	Accounts not lodged
6.	41—Mankada	1. Manamkuzhiyil Alavi, Manamkuzhiyil, Cherukulamba, P.O. Vattallur, Makkaraparamba, Malappuram, Pin : 676507 2. P. M. Ali, Parakkal House, Hajiyar Palli, P.O. Malappuram Pin : 676519	Accounts not lodged

1	2	3	4
		3. Koorimannil Pattiyil Ahammed Majeed Koorimannil Pattiyil House, P.O. Vellila, Malappuram.	
7.	42—Perintalmanna	1. Madathody Ayamu Haji, Madathody House, Thelakkad P.O. 2. Thamarath Asharaf A.li, Thamarath House, Manathumangalam, Perintalmanna, Perintalmanna. 3. Karayil Sunil Kumar, Karayil House, Manathuma Ngalam, Perintalmanna.	Accounts not lodged
8.	47—Mannarkkad	1. M. Sukumaran, Meluveetil, Agaly P. O. Palakkad, Pin : 678581	Accounts not lodged
9.	49—Palghat	1. Adv. Rema Reghunandan, “Smruthy” Akkikave, Kunnankulam, Thrissur.	Accounts not lodged

[No. 76/KL-LA/2001]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 08 दिसम्बर, 2003

आ. अ. 61.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधान सभा 2001 के साधारण निर्वाचन/उपनिर्वाचन, 2002 के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है; स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	37—गुडियाथाम	1. लक्ष्मीकान्तन, एम. पट्टु ग्राम, मेलालाथुर पो०, गुडियाथाम, चैन्नई, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।

उप-निर्वाचन, 2002

2.	14—सैदापेट	1. आनन्दन, एन 134-भारतीपुरम, शिनाय नगर, चैन्नई-30, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
----	------------	---	---------------------------

1	2	3	4
2.	14—सैदापेट (जारी)	2. गणेशन, यू. 37, चौथी स्ट्रीट, नेताजीनगर, तोन्दियारपेट, चैन्नई, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		3. शिवमणि, एस 7, इलैग्न कोइल स्ट्रीट, पश्चिम मामबालम, चैन्नई, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		4. सुन्दरराज, ए. 10/1, पाइडापेटट्याग्न, कोडल स्ट्रीट, पश्चिम मामबालम, चैन्नई-33, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		5. सुब्रामणि, एम. नं. 20, कोट्टीवाक्कम, कुप्पम सलै, वाल्मीकी नगर, तिरुवानमियूर, चैन्नई-41, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		6. सुरेश एस उर्फ सुरेश कुमार, नं. 4, 60 वीं स्ट्रीट, अशोक नगर, चैन्नई, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		7. सेल्वम एम., 47, बंडीकारन स्ट्रीट, पश्चिम मामबालम स्ट्रीट, चैन्नई-33, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		8. सेकर पी. के., 37, सूरिआम्पन, पेट्टई स्ट्रीट, चैन्नई-15, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		9. प्रीति भास्कर, सं. 17 नार्थ मंगैम्पन, कोइल 4 स्ट्रीट, वडापालिनी, चैन्नई-26, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		10. मणि, आर. 498, पेरियार, ई वी. आर. हाई रोड, अरुमबाक्कम, चैन्नई-106, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		11. रवि, आर. 30, बंडीकारन स्ट्रीट, पश्चिम मामबालम स्ट्रीट, चैन्नई-33, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		12. अरुणथाथी रामचन्द्रन, उर्फ रामचन्द्रन, नं. 11, पहली मंजिल, पेरियार सलै, अयन्नावरम, चैन्नई-23, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।

1	2	3	4
2.	14—सैदापेट (जारी)	13. वेंकटरा नं. 41, राजीव गांधी नगर, श्रीनिवासपुरम, चैन्नई-28, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		14. वेलुमणि, मां. सू. नं. 7, हलैम्मन कोइल स्ट्रीट, पश्चिम मामबालम स्ट्रीट, चैन्नई-33, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।
		15. जेकब एम., एम-31 वेंकटपुरम, एस सी बी अनेमेटेंस, जी. डी. नायडू नगर (पश्चिम), सैदापेट, चैन्नई-15, तमिलनाडु।	लेखा दाखिल नहीं किया गया।

[सं. 76/त. ना.-वि० सं०/2001]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2003

O. N. 61.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2001/Bye election 2002 held from the Constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder,

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.—

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the Contesting Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	37—Gudiyatham	1. Lakshmikanthan, M. Pattu Village, Melalathur Post, Gudiyatham	Accounts not lodged
2002 Bye election			
2.	14—Saidapet	1. Anandan, N. 134, Bharathipuram, Shenoy Nagar, Chennai-30 2. Ganesan, U. 37, 4th Street, Nethaji Nagar, Tondiarpet, Chennai-81 3. Sivamani, S. 7, Ellaianman Koil Street, West Mambalam, Chennai-33	Accounts not lodged of all.

1	2	3	4
		4. Sundarraj, A. 10/1, Padavettamman Koil Street, West Mambalam, Chennai-33	
		5. Subramani, M. No. 20, Kottivakkam Kuppam Salai, Valmigi Nagar, Thiruvanniyur, Chennai-41.	
		6. Suresh S. alias Suresh Kumar, No. 4, 60th Street, Ashok Nagar, Chennai.	
		7. Selvam, M. 47, Vandikkaran Street, West Mambalam, Chennai-33.	
		8. Sekar, P.K., 37, Soodiamman Pettai Street, Saidapet, Chennai-15.	
		9. Preethi Baskhar, No. 17, North Gangaianman Koil 4th Street, Vadapalani, Chennai-26.	
		10. Mani, R. 498, Periyar E. V.R. High Road, Arumbakkam, Chennai-106.	
		11. Ravi, R., 30, Vandikkaran Street, West Mambalam, Chennai-33.	
		12. Arunthathi Ramachandran alias Ramachandran, No. 11, 1st Floor, Periyar Salai, Ayyanavaram, Chennai-23.	
		13. Venkatesh, No. 41, Rajiv Gandhi Nagar, Srinivasapuram, Chennai-28.	
		14. Velumani, Ma. Su., No. 7, Ellaiamman Koil Street, West Mambalam, Chennai-33.	
		15. Jacob, M., M/31, Venkatapuram SCB Tenements, G.D. Naidu Nagar (West), Saidapet, Chennai-15.	

[No. 76/TN-LA/2001]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2003

आ. अ. 62.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि कर्नाटक विधान सभा के 2003 के उप निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी,

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	5-हुम्नाबाद	1. श्री अशफ़द्दीन सुपुत्र सरदार मियां म. नं. 11-224, ब्रह्मपुर, लालगेरी, गुलबर्गा।	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया
		2. श्री चन्ना बसवानंद स्वामी जी, पत्नी मलैय्या डकुल्ली, खटकचिन्वोली, भाल्की तालुक, बीदर जिला।	—वही—
		3. श्री एम. जी. दयानन्द, रंजोलखेनी, बीदर तालुक, बीदर जिला।	—वही—

[सं. 76/कर्ना.-वि० सं०/2003(उप)]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2003

O. N. 62.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (3) of the Table below at the By-Election to the Karnataka Legislative Assembly, 2003 held from the Constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as required by law as shown in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder; and

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this Order :—

TABLE

Sl. No.	No. and Name of Assembly Constituency	Names of contesting candidates	Reasons for disqualification
1	2	3	4
1.	5-Humnabad	1. Shri Ashfoddin, S/o Sardar Miyan, H. No. 11-224—Brahmapur, Lalageri, Gulbarga.	Account not lodged at all

3	4
2. Shri Channa Basavanand Swamji, W/o Mallayya Dakulgi, Khatakchincholi Bhalki Tq. Bidar District.	Account not lodged at all
3. Shri M.G. Dayanand Ranjolkheni, Bidar Taluk, Bidar District.	

[No. 76/KT-LA/2003 (Bye)]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2003

आ. अ. 63.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्ती बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता के कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण-निर्वाचन, 2002	3—भुज	रावड़िया गंगजी, मो. और पो. सुख परजुनोवास, ता.—भुज, कच्छ, गुजरात	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	-वही-	6—रापर	हिंमोरजा मामदभाई सुलेमान, टागा-पांडयानों गढ़, तालुक—रापर, जिला—कच्छ	-वही-
3.	-वही-	8—वाधवान	पटेल जगदीशभाई कांजीभाई (शिवसेनावाला) 4—गायत्री पार्क, सोसायटी पटेल बोर्डिंग के सामने, वाधवान सिटी	-वही-
4.	-वही-	15—बंकानेर	कादीवर महमद आमी मो., पोस्ट—रातीदेवली, तालुक—बंकानेर, जिला—राजकोट	-वही-
5.	-वही-	60—धोलका	सोलंकी दिलीपभाई करसनभाई गुन्दी, तालुक—धोलका	-वही-
6.	-वही-	62—मण्डल	पटेल प्रहलादभाई अमवरमभाई मो.—जालिशना, ता.—मण्डल, जिला—अहमदाबाद	-वही-

1	2	3	4	5
7.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण- निर्वाचन, 2002	73—रखिआल	पटेल जितेन्द्र कुमार जेठा ला ए/2, भाग्योदय सोसायटी, रायपुर-हीरपुर, अहमदाबाद-380021	लेखा दाखिल नहीं किया
8.	-वही-	81—कादी	ठाकुर ईश्वरजी धूलाजी मो. रणछोड़पुरा, तालुक-कलोल, जिला-गांधी नगर	-वही-
9.	-वही-	-वही-	ठाकुर ईश्वर जी, रायसंगजी, ग्राम-कादी, जि.-मेहसाणा, मो.पो.-बावलू	-वही-
10.	-वही-	-वही-	ठाकुर गानाजी गुलाबजी मो. बालासर, पो. कादी, ता. कादी, जिला-मेहसाणा	-वही-
11.	-वही-	-वही-	ठाकुर भवनजी वेलाजी स्थान-जूलासन, ता. कादी, जिला-मेहसाणा	-वही-
12.	-वही-	-वही-	ठाकुर भीकाजी गुलाबजी, ठाकुरवास, मो. लहोर, ता. कादी, जिला-मेहसाणा	-वही-
13.	-वही-	-वही-	ठाकुर राधुजी नागाजी स्थान-फतेहपुरा, पो. आ.-कल्याणपुरा, ता. कादी, जिला-मेहसाणा	-वही-
14.	-वही-	-वही-	बंकर शंकर भाई शंकर भाई, वंकरवास, मो. इन्दराद, ता. कादी, जिला-मेहसाणा	-वही-
15.	-वही-	-वही-	सिपाई इमामभाई मुम्माद भाई सिपाई वास, स्थान-पानथोडा, पो. आ.-जेसंगपुरा, ता.-कादी, जिला-मेहसाणा	-वही-
16.	-वही-	90—बागदोद	मुम्मन रसूलभाई सुलेमान मो.-देलवाडा, मार्फत-मोमिनपारा, ता.-पाटन, जिला-पाटन	-वही-
17.	-वही-	93—सामी	वैद्य संजय कुमार वासुदेव भाई 422, डबर डेकर, सैक्टर-24, गांधी नगर	-वही-
18.	-वही-	94—राधनपुर	रावल भूराभाई मोतीभाई मो. व पो. मोटीपिपली, ता.-राधनपुर	-वही-
19.	-वही-	111—सन्नामपुर	दामोर गुलाबसिंह मोतीभाई मो.-बुचवाड़ा, पो.-अमाथानी, ता.-कडाना	-वही-
20.	-वही-	122—लुनावाड़ा	जोंशी अरविन्दकुमार रेवा शंकर, मो. पो.-वनिया बालागेरादा, ता.-लुनावाड़ा	-वही-

1	2	3	4	5
21.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण-निर्वाचन, 2002	126-थसरा	अमरसिंह रायसिंह परमार, मो. पंडवानिया, ता.-थसरा	लेखा दाखिल नहीं किया
22.	-वही-	-वही-	परमार अम्बुभाई देसाई भाई, सुरजी वागा, धूनान्द्रा, ता. थसरा	-वही-

[सं. 76/गुज./2003/प. अनु-1]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th December, 2003

O. N. 63.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly in Gujarat State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses, as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	S. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2002.	3—Bhuj	Rabadia Gangji, At & Post : Sukhpar, Junovas, Tal. : Bhuj-Kachchh, Gujarat	Account not lodged
2.	-do-	6—Rapar	Hingorja Mamadbhai Suleman, Taga-Pandyano Gadhi, Taluka-Rapar, Dist-Kachchh	-do-
3.	-do-	8—Wadhwan	Patel Jagdishbhai Kanjibhai, (Shivsenavala) 4-Gayatirpark Society, Opp. Patel Boarding, Wadhwan city	-do-
4.	-do-	15—Wankaner	Kadivar Mahamad Ami, At. Post-Ratidevali, Taluka-Wankaner, Dist.-Rajkot	-do-
5.	-do-	60—Dholka	Solanki Dilipbhai Karsanbhai, Gundi, Taluka-Dholka	-do-
6.	-do-	62—Mandal	Patel Prahladbhai Ambarambhai, At-Jalishna, Ta.-Mandal, Dist.-Ahmedabad	-do-
7.	-do-	73—Rakhial	Patel Jintendrakumar Jethalal, A/2, Bhagyoday Society, Raipur-Hirpur, Ahmedabad-380021	-do-

1	2	3	4	5
8.	General Election to the Legislative Assembly, 2002	81—Kadi	Thakor Ishvarji Dhulaji, At-Ranchhodpura, Ta.-Kalol, Dist.-Gandhinagar	Account not lodged.
9.	-do-	-do-	Thakor Ishvarji Raysangji, At & Po.-Bavalu, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
10.	-do-	-do-	Thakor Gabhaji Galabji, At-Balasar, PO-Kadi, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
11.	-do-	-do-	Thakor Bhavanji Velaji, At-Julasan, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
12.	-do-	-do-	Thakor Bhikhaji Galabji, Thakorvas, At-Lhor, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
13.	-do-	-do-	Thakor Radhuji Nagaji, At-Fatepura, PO-Kalyanpura, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
14.	-do-	-do-	Vankar Shakarabhai Shankarbhai, Vankarvas, At-Indrad, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
15.	-do-	-do-	Sipai Imambhai Mumadbhai, Sipai Vas, At-Panthoda, PO-Jesangpura, Ta.-Kadi, Dist.-Mehsana	-do-
16.	-do-	90—Vagdod	Muman Rasulbhai Suleman, At-Delvada, C/o-Mominpara, Ta.-Patan, Dist.-Patan	-do-
17.	-do-	93—Sami	Vadiya Sanjaykumar Vasudevbbhai, 422, Double Dekar, Sector-24, Gandhinagar	-do-
18.	-do-	94—Radhanpur	Raval Bhurabhai Motibhai, At & PO.-Motipipli, Ta.-Radhanpur	-do-
19.	-do-	111—Santrampur	Damor Gulabsinh Motibhai, At-Buchawada, PO.-Amathani, Tal.-Kadana	-do-
20.	-do-	122—Lunawada	Joshi Arvindkumar Revasankar, At. PO.-Vaniawalagorada, Ta.-Lunawada	-do-
21.	-do-	126—Thasra	Amarsinh Raysingh Parmar, At.-Pandvaniya, Ta.-Thasra	-do-
22.	-do-	-do-	Parmar Ambhubhai Desaibhai, Surjivaga-Dhunandra, Ta.-Thasra	-do-

[No. 76/GJ/2003/WS-I]

By Order,
SHANGRAM, Secy.